

Recovery Section, Circle Office, 7th Floor, Ansal Towers, 38, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone No. 011-26292604; 26419921

E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable property mortgaged/hypothecated charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Canara Bank., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on below mentioned dates through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in provided in provided in provided E-bkray (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (Contact No. 7046612345/6354910172/8291220220/9892219848/8160205051, Email:support.ebkray@psballiance.com/ support.ebkray@procure247.com) or Canara Bank's website www.canarabank.com, EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkray) portal directly or by generating the Challan therein to est the EMD through DTCS/NEET in the account details as mentioned in the said shallow

aepo	deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan.							
Sr. No.	Name of the Branch	Borrower / Guarantors / Mortgagor Name & Address	Details of movable/ immovable property and status of possession	Total Duce	a. Reserve Price (Rs) b. EMD (Rs) c. Incremental Bid (Rs) d. Date of Notice	Date & Time of Auction (With unlimited extensions of 5 minutes duration each)	Last Date & Time of Submission of EMD	The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer & Contact Person
1	KHAN MARKET BRANCH	1) M/s Shree Balaji Enterprises (Borrower) Through its Proprietor Mr. Dipanshu Gaur Regd Address – Plot No 2592-A, Sanjay Colony, Sector-23, Mauza-Gaunchi, Tehsil-Ballabhgarh, District-Faridabad Haryana-121001 2) Shri Dipanshu Gaur (Proprietor) S/O Dinesh Dutt Sharma, Plot No-2592-A, Sanjay Colony, Sector-23, Faridabad, Haryana-121001 3) Smt. Sumitra Sharma (Guarantor cum Mortgager) W/O Sh Dinesh Dutt Sharma, Plot No-2592-A, Sanjay Colony, Near Lakhani Chowk, sector-23 Faridabad, Haryana-121001	sq. Yds. Forming Part of Khasra No 29/1/3 (3-1), 9/2/2 (3-0) situated Near Lakhani Chowk, Sanjay Colony, Sector-23, Mauza Gaunchi, Tehsil Ballabhgarh, District Faridabad, Haryana-121001, North: 20 wide road, South: Other's Property, East: Plot No-56 West: Plot No-59, (Under Symbolic Possession)	24,03,2023 and payable with further interest at applicable rates & rests along with	b. 4,32,000/- c. 25,000/- d. 29-08-2024	17-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM		06.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. B. P. Nanjundappa, Mob. No. 7259204252, Authorised Officer, Sh Lokesh Kumar Chitoshiya, Mob. No. 7793828384, Branch-Head

Intending bidders may contact for properties during office hours on any working day for other details and inspection of properties.

Date: 29-08-2024, Place: New Delhi

Authorised Officer, Canara Bank

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

	RELEVANT I	PARTICULARS
1.	Name of corporate debtor	SHYAM INDOFAB PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	19/01/2012
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	1212A, CHIRANJIV TOWER 43, NEHRU PLACE, New Delhi, India, 110019
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	27.08.2024 (Copy of the order received on 28.08.2024)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	23.02.2025
8.	TO A SOURCE OF THE COURT OF THE	Mr. Jagdish Kumar IBBI/IPA-001/IP-P00671/2017-2018/11143
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	
10.		Top Floor, 581, Sector-27, Gurgaon, 122001 E-mail: shyam.indo@truproinsolvency.com
11.	Last date for submission of claims	11.09.2024
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	6322194764300400
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	
	(a) Relevant Forms and	Weblink:

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi bench court no. IV has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Shyam Indofab Private Limited on

(b) Details of authorized

(s)/ Co-Borrower(s)/

Legal Heirs

Mrs.Sneh Lata

Smt. Bimla Rani

No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi, Date: 30-08-2024

Members at a common venue.

Private Limited/the Company.

Date: August 29, 2024

Place: Agra

RTA to facilitate remote e-voting and evoting during the AGM.

register / update their email ID with their respective Depository Participant(s).

voting and voting at the AGM shall be provided in the Notice of the AGM.

representatives are available at:

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFĽ) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Securit

nterest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the

Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the pub

lic in general that the undersigned has **taken possession** of the property described herein below in exercise of powers

onferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby autioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for ar mount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower's attention is invited to provisions of sub-sectior

(8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expens

es incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by

Area 900 Sq. Ft. and One Shop on Ground Nine Thousand Three Hundred

or. further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor

Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom,Moti Nagar, New Delhi **or Corporate Office:** Plo

Notice of the Twenty Fifth Annual General Meeting to be held through Video

Conference/Other Audio-Visual Means

NOTICE is hereby given that Twenty Fifth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of PNC

Infratech Limited ('the Company') will be held on Saturday, September 28, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and

the rules made thereunder ('Act'): provisions of the Securities Exchange Board of India ('SEBI')

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the

provisions of General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, other circulars issued by the

Ministry of Corporate Affairs from time to time and circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-

2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI, without the physical presence of the

In compliance with above circulars, the Notice of the 25th AGM together with the Annual Report for

the Financial Year 2023-24 will be sent to those members electronically whose email IDs are

registered with the Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent i.e. Link Intime India

The Notice of 25th AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-24 will also be available on the

Company's website www.pncinfratech.com; websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and

National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

respectively, and on the website of Link Intime India Private Limited ('RTA') at

https://instavote.linkintime.co.in. Necessary arrangements have been made by the Company with

Members who have not yet registered/updated their e-mail ID with the Company are requested to

The Final Dividend of Rs. 0.60 per Equity Share of Rs. 2/- each, recommended by the Board of

Directors of the Company for the financial year ended 31st March, 2024, if declared at the 25th AGM,

will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic mode to those Members who

have furnished their required bank details to the Company / the respective Depository Participants

('DPs'). Members who have not provided the same and, wish to avail the facility for remittance of

dividend through electronic mode are required to provide the said details, including IFSC {'Indian

Financial System Code') and MICR ('Magnetic Ink Character Recognition') Number, to the respective

DPs, and make sure that such changes are recorded by them correctly before 21st September, 2024.

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the

resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will provide the facility of voting

through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-

By Order of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer

For PNC Infratech Limited

Tapan Jain

M. No: A22603

PNC INFRATECH LIMITED

(CIN -L45201DL1999PLC195937)

Registered office: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017

Website: www.pncinfratech.com, Email: complianceofficer@pncinfratech.com

Total Outstanding

Dues (Rs.)

961612 is Rs.5,99,334/-

(Rupees Five Lakh Ninety

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

Date of Date

Demand Posse

ssion

27-

Aug-2024

Notice

May-2024

"IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. **Description of the Secured Asset**

Undergarments Store Property Bearing No 602-C/1, ward No 3, Comprised in Khasra No 1151/3 Min , Rs.1,23,702/- (Rupees One

(Prospect No 961612 Situated at abadi Under Lal Dora of Village and Tehsil Mehrauli, New Delhi, 110030. Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred Two Only)

(Immovable Property)

All that piece and parcel of Property

Bearing: Entire Ground Floor having an

Floor , having an Area 80 Sq. Ft. of

The creditors of Shyam Indofab Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 11.09.2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Jagdish Kumar, Interim resolution professional, Regd. no.: IBBN/PA-001/IP-P00671/2017-18/111143 Communication Email ID: shyam.indo@truproinsolvency.com Regd. Add: House no: B-56, Wallfort City, Bhatagona, Ring Road No. 1, Raipur, Chhattisgarh - 492013 Date: 30.08.2024 AFA Valid till 18,10,24 Regd, Email ID: jkparulkar.ip@gmail.com Place : Raipur

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आदेश ५ कायदा १ व ५) समक्ष न्यायालय कमरियिल कोर्ट सं०- । ।,

(जिला पंचायत भवन) निकट कोतवाली कासना, गौतमबुद्धनगर

मूल वाद संख्या 572 सन 2016 बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मि० नितिन गुप्ता आदि बैंक ऑफ बड़ौदा एकनिगमित निकाय है जिसका प्रधान कार्यालय माडवी बड़ौदा में है जिसकी अनेक शाखाओं, में से एक शाखा सूर्यनगर गाजियाबाद में है

1. मि० नितिन गुप्ता पुत्र एस के गुप्ता निवासी बी 135 शालीमार गार्डन एक्स० नम्बरा 2 जे एन सी अपार्टमेन्ट साहिबाबाद गाजियाबाद तहसील

2. मि० सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री मिलखी राम गुप्ता निवासी बी 135 शालीमार गार्डन एक्स० नम्बरा 2 जे एन सी अपार्टमेन्ट साहिबाबाद गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद

3. नि० रमेश चन्च गप्ता निवासी बी 135 शालीमार गार्डन एक्स० नम्बरा—2 जे एन सी अपार्टमेन्ट साहिबाबाद गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद हरगाह वाची ने आपके नाम एक नालिश बाबत धन वसूली वाद के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप तारीख 05 माह 09 सन 2024 वक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करे जिन पर आप बताईद अपनी जवाब देही के इस्तदमाल करना चाहते हो आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 09 माह 08 सन 2024 ई० जारी किया।

(म्ंसरिम रीडर)

CORRIGENDUM

Reference to the Public Notice (Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016) advertisement published in this newspaper on 17th August 2024 of Personal Guarantors Mr. Manu Indrayan & Mrs. Mohita Indrayan. Due to typo graphic error, the company name in the advertisement of both PG was published as Indian Clothing League.

It is hereby clarified that both are the Personal Guarantors of M/s. Indian Clothing League Private Limited having CIN No.: U17290PB1987PTC052365. Other details remains same & corrected.

Date: 29.08.2024 Navneet Gupta Place: Chandigarh Resolution Professional Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P000361/2017- 2018/10619

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any

manner whatsoever.

NORTHERN RAILWAY

Invitation of Tenders through E-Procurement System Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and

on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:

No.	No.	Brief Description	Qty.	Date
01	77249009 RGC	RUNNING CONTRACT FOR JOGGLED FISH PLATE	66170 PAIR	24.09.2024
02	08245211	RC TENDER FOR SIGNALING CABLES SIZE 2 CORE X 2.5 SQ.MM.	303,50 KILOMETER	01.10.2024

No manual offer will be entertained. 2690/2024 Tender Notice No. 46 /2024-2025, Dated: 29.08.2024 **SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE**

(2) GCODLUCK GOODLUCK INDIA LTD.

Regd. Off.: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi – 110 001 Corp. Off.: Good Luck House, II-F, 166-167, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad, 201001 CIN: L74899DL1986PLC050910; Tel: 91-120-4196600

e-mail: goodluck@goodluckindia.com; website: www.goodluckindia.com NOTICE

Notice is hereby given that the 38th AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on 28th September, 2024, Saturday at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with General circular 09/2023 dated September 25, 2023 and 10/2022 dated December 28, 2022 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2023-2024 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. f your email ID is already registered with the Company/ Depository, Notice of AGM along

with annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting. Physical Shareholders are requested to furnish their email ids, mobile no., bank

Holding account details for the purpose of 38th AGM (Annual General Meeting) of the Company and/or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribe by SEBI with the company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020. Email Id: investor@masserv.com Website: www.masserv.com. Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA at www.masserv.com under download tab. You are

requested to kindly note the same and update your particulars timely. Demat Please contact your Depository Participant (DP) and register your email **Holding** address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on Company's website at www.goodluckindia.com and also on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Goodluck India Limited

Place: New Delhi (Abhishek Agrawal) Date: August 29, 2024 Company Secretary



NOTICE INVITING E-TENDER

An e-tender is invited by Executive Director, Power Marketing, CESC Ltd on 28.08.2024, having registered office at CESC House, Chowringhee Square, Kolkata-700001 for purchase of power on Short Term basis from Oct, 2024 to Mar, 2025 as per Ministry of Power (MOP), GOI guidelines dated 30.03.2016 and amendments thereof. Request for Proposal (RFP) is available on www.mstcecommerce.com and www.cesc.co.in. The bids are to be submitted electronically through DEEP Portal of MSTC.



BHARAT HOTELS LIMITED CIN: U74899DL1981PLC011274

Regd. Office: Barakhamba Lane, New Delhi - 110 001 Phone.: 91-11-4444 7886 Email: bhlshare@thelalit.com, Website: www.thelalit.com

INFORMATION REGARDING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Bharat Hotels Limited (the Company) will be held on Saturday, September 21, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the requirement of physical presence of the Members at the AGM, to

IOTICE OF THE $43^{
m rd}$ ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Barakhamba Lane, New Delhi -110 001 (India). The attendance of members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24, through electronic mode (i.e. emails) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or your Depository Participants as on Friday, August 23, 2024. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been done on Monday, August 26, 2024.

The Notice of AGM and Annual Report is also available on the website of the Company at www.thelalit.com.in its Investor Relations section and on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2023-24 has been dispensed with pursuant to the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs. However, in case any shareholder requests for the same, physical copy of the Annual Report will be sent to him.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with

nstructions for remote e-Voting and e-Voting:

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by KFin Technologies Limited ("KFinTechnologies"). Member's holdings share either in physical form or dematerialized form, as on Monday, September 16, 2024 ("Cut-off date") can cast their vote via remote e-voting facility. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Further, a person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only. . The remote e-voting period will commence on Wednesday,

September 18, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Friday, September 20, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFinTechnologies thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it ii. Members who have acquired shares before the Cut-off date may

obtain the User ID and password by sending a request to the Company or to KFinTechnologies. v. Members attending the AGM through VC / OAVM but have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through

e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC / OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM. The Members/Shareholders are also requested to carefully read the

Notes set out in the AGM Notice for more details on process to be followed for joining the AGM and manner of casting vote etc.

In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting and AGM, they may be addressed to Shri Suresh Babu, Sr. Manager, KFin Technologies Limited, Unit: Bharat Hotels Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 | Toll free No.: 1800-309-4001 Tel No. 040-6716 1517/2222 | E-mail: evoting@kfintech.com and einward.ris@kfintech.com or to Shri. Satya B. Muduli – Manager, Bharat Hotels Ltd., Barakhamba Lane, New Delhi-110001 at the designated email id bhlshare@thelalit.com or at +91 11 4444 7886.

For **BHARAT HOTELS LIMITED**

(Himanshu Pandey)

Company Secretary & Head Legal M. No. ACS-13531

Date: August 28, 2024 Place: New Delhi

BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED

Registered Office: "The Address", Plot No. 4B, District Center, Mayur Vihar Phase-1 Extension, New Delhi-110091 Contact Number: 814-323-2814, E-Mail id:- support@bpdl.in CIN: U22110DL1946PLC001017

NOTICE OF 79th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED is scheduled to be held on Saturday, the 21st September, 2024 at 03:00 PM (IST) at Malaviya Smriti Bhawan, Plot No 52-53, Deen Dayal Upadhya Marg, New Delhi - 110002, to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM.

to their respective addresses registered with the Company on August 28th, 2024. The e-copy of the notice of the AGM along with Annual Report of the company is available on the website of the RTA (https://www.alankit.com/) and may also be assessed on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members may note that Notice of the AGM along with Annual Report have been sent

MANNER OF REGISTERING /UPDATING EMAIL ADDRESSES: Members holding shares in physical form and who have not yet registered/updated

their email address are requested to register/ update the same by writing to Alankit assignments Limited (RTA) at: rta@alankit.com along with copy of signed letter mentioning- Name of the shareholder, folio no., address, no. of shares held along with scanned copy of share certificate (front and back), self- attested copy of PAN card, self- attested copy of Aadhar & copy of cancelled cheque.

Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered / updated their email address are requested to get their email address registered/updated with their respective Depository participants.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 14th, 2024 (Saturday) to September 18th, 2024 (Wednesday).

INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the company is providing to its members the facility of remote e-voting before the AGM, in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the notice of AGM and also available at the website of NSDL. Members are requested to note the following: (a) The remote e-voting shall commence on September 18th, 2024 at 10:00 A.M. (IST)

and shall end on September 20th, 2024 at 05.00 P.M. (IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

The voting rights of the members will be in proportion to their share of the paid-up capital of the company as on September 13th, 2024 (Cut Off date). A person whose name is recorded in the Register of members / Register of beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting. Any person who acquires shares or becomes a member of the Company after dispatch

of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 13th 2024, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request to NSDL at their email Id: evoting@nsdl.co.in or may call on their helpdesk number 022 - 48867000 / 022 - 24997000. (d) The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM

will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM. (e) The procedure for electronic voting is available in the notice of AGM as well as in the email sent to the members by NSDL.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on their helpdesk number 022 - 48867000 / 022 – 24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

(g) Ajay Baroota, (Membership no. 3495 & CP no. 3945), Prop. Ajay Baroota & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. For Bharat Prakashan (Delhi) Limited

Place: New Delhi Dated: 28th August 2024

Managing Director DIN: 01061882

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the

Franch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice. Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited. Date of Demand Name of Name of the Description of Property/

No.	Borrower(s)/ Loan Account Number	Date of Symbolic Possession	in Demand Notice (Rs)	Branch
		House Built Over Plot No. 2A-418 & 419, Situated at Krishna Vihar Awasiya Yojna (Behind B.S.A. College), Tehsil and District Mathura, Uttar Pradesh- 281001. August 27, 2024	Rs.	Mathura

else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: August 30, 2024 Sincerely Authorised Signatory Place: Mathura For ICICI Bank Ltd.



SHALIMAR PAINTS LIMITED

(CIN: L24222HR1902PLC065611) Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector-32, Gurugram, Haryana-122001

Corporate Office: 1st Floor, Plot No. 28, Sector-32, Gurugram, Haryana-122001 Website: www.shalimarpaints.com E-mail: askus@shalimarpaints.com Phone No.: 0124-461 6600 Fax No. 0124-461 6659

NOTICE FOR REGISTRATION OF EMAIL IDS FOR THE PURPOSE OF 122[№] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH **VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS** Notice is hereby given that the 122" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shalimar Paints Limited ("the

Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the AGM Notice, which will be circulated in due course for In compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circulars issued by the Securities and

Exchange Board of India, the Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31,

2024 along with the Notice of AGM will be sent in due course through electronic means only to those members whose email

addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") / with the respective Depository Participants ("DPs"). The AGM Notice and Annual Report will also be available on the Company's website at www.shalimarpaints.com, websites of

the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, where the Company's shares are listed and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.cdslindia.com. The Company will provide remote e-voting facility ("Remote E-voting") to all its members to cast their votes on all the

resolutions set out in the AGM Notice. Additionally, the Company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM ("E-Voting"). The manner of casting votes through Remote E-voting / E-voting at AGM will be provided in the AGM Notice. Shareholders who have not registered their email address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company or with their

respective DP(s), and who wish to receive the Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2023-24 and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting, can get their email address registered with the Company. For this purpose, they can send scanned copy of a signed request letter mentioning folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document supporting the registered address of the Member, by email to Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Company's RTA at beetal@beetalfinancial.com or at Company's email address: askus@shalimarpaints.com. Members holding shares in demat form are requested to update their email address with their respective DP(s).

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Circulars.

> For Shalimar Paints Limited Shikha Rastogi

By order of the Board of Directors

(Name : Arun Kumar Goyal)

Place: Gurugram

Dated: August 29, 2024

New Delhi

Company Secretary & Head-Legal

financialexp.epapr.in

कब्जा सचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1) जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता विचीय संपत्तियों के प्रतिसूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनेयम 2002 के तहत आईआईएफएल हो फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआईएफएल-एचएफएल) का प्राधिकृ अधिकारी के रूप में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहर कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस किया गय था, उधारकर्ता और आम जनता को यह बताया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रवत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है हि वे संपत्ति के साथ दोनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी तेनदेन आईआईएफएस एयएफएस के शुरू के अधीन होगा, जैसा कि नीरं उल्लिखित राशि के लिए व्याज सहित होगा। "उधारकतां का व्यान अधिनयम की धारा 13 की उधारा (8) के प्रावचानों की ओर आकांग्रित किया जाता है. यदि उधारकतां निर्धारित तिक्षि से पहले किया भी समय सभी मानारों सुक्कों की एउचाँ के साथ "आईआईएफएस प्याल चुका देता है। विकी या हस्तांतरण, सुरक्षित संपत्तियों को 'आईआईएफएस एचएफएस' द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया आएगा और सुरक्षित एचिमाधिकों के उत्तरंतारण, सिर्का के दिया 'आई'स्वीकाच्या धारामाध्याल' उसा के दी आई करना करीं उसारा जागा।

पारसपात्तया क हस्तातरण य	। विक्रा के लिए "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा काः	इ आर कदम नहां उठाया जाएगा।		
उधारकर्ता(ओँ) / सह—उधारकर्ता(ओँ) /	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देय (रु.)	मांग सूचना	कब्जा की
का नाम	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 900	961612 का मूल्य	की तिथि	
श्रीमती स्नेह लता	वर्ग फीट है और भूतल पर एक दुकान है,	₹.5,99,334 /-	41 1411-4	तिथि
	जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग फीट है, संपत्ति संख्या	(पांच लाख निन्यानबे हजार तीन	27	27
मेसर्स तान्या कॉस्मेटिक	602-सी/1, वार्ड संख्या 3, खसरा संख्या	सौ चौंतीस रूपये मात्र) और	मर्ड	अगस्त
और अंडरगारमेंद्स स्टोर	1151/3 मिनट में समाहित, गांव और तहसील	962473 का मूल्य रु.1,23,702/-	2024	2024
(प्रोस्पेक्ट नंबर 961612	महरौली, नई दिल्ली, 110030 के लाल डोरा के	(एक लाख तेईस हजार सात सौ	2024	2024
और 962473)	नीचे आबादी में स्थित है।	दो रूपये मात्र) है।		
अधिक जानकारी के लिए कपया शाखा कार्यालय में प्राधिकत अधिकारी से संपर्क करें: प्लॉट नंबर 30 / 30ई. ऊपरी भतल. मेन शिवाजी				

र जा नगरा के 1लड़ शुन्तमा साजा कामालव न प्रावशृत आवकारा स सपक करें: 'लाट नंबर 30/30इ, ऊपरा मूतल, मेन शिवाज नजफगड़ रोड, जनुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर प्लॉट नंबर अ हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए स्थानः दिल्ली. दिनांकः ३०–०८–२०२४

MORGAN VENTURES LIMITED

CIN:L70109DL1986PLC025841

Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024 Ph. No. 01126432601, Website-www.morganventures.in, Email -secretarial@goyalgroup.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING We draw attention of all the members of the Company to the AGM Notice dated August 22, 2024 convening the 37th Annual General Meeting of the Company ('AGM Notice') scheduled to be held on Friday, September 20, 2024 at 10:00 A.M. at Rosemallow Hotels, C-18, Basement, Friends Colony (East), New Delhi 110065.

This corrigendum is being issued to give notice to add the Special Business set out as Item No. 5 of the AGM Notice. Kindly note that the corrigendum to the Notice is being sent by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories and will also be made available on the website of the company at www.morganvenutres.in, website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.

On and from the date thereof, the AGM Notice shall always be read in conjunction with the corrigendum. All other contents of the AGM Notice, save and except as amended by the corrigendum, shall remain unchanged.

Accordingly, all the concerned shareholders, stock exchange, depositories, registrar and share transfer agents, agencies appointed for e-voting, all other authorities, regulators and all other concerned persons are requested to take note of the same

For Morgan Ventures Limited By Order of the Board of Directors Place: New Delhi

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **कर्जाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय

परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 क

54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त

अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सचना दिनाँकित

20-05-2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरों : (1) मैसर्स चौधरी बजाज

अपने निम्न भागीदारों द्वारा अभ्यावेदित : क) श्री गिरीश चौधरी, ख) श्रीमती अलका चौधरी, ग) सुर्श्र

दीपिका चौधरी, पंजीकृत पता : दुकान नं.-7 भूतल, बिहारी भवन, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइंस

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश — 211001, (2) श्री गिरीश चौधरी पुत्र सुंदर दास, (3) श्रीमती अलका चौधरी पत्नी गिरीश चौधरी, (4) सुश्री दीपिका चौधरी पुत्री गिरीश चौधरी, सभी नंबर (2) से (4) यहां के निवासी

हैं : यूजीएफ 1, नंबर 11/11, पोनम अपार्टमेंट, लकरगंज, प्रयागराज — 211001, उत्तर प्रदेश, क

सूचना में अंकित राशि **रु. 66,75,148.68 (रुपये छियासठ लाख पिचहत्तर हजार एक सौ अड़तालिर**

एवं अड्सठ पैसे मात्र) अर्थात् (i) पीएस टर्म लोन खाता संख्या 0297001800021401 के अंतर्गत

रु. 18,27,433.00 दिनाँक 29.04.2024 से भावी ब्याज सहित, (ii) पीएस टर्म लोन खाता संख्य

0297001800021501 के अंतर्गत रु. 32,20,455.00 दिनाँक 29.04.2024 से भावी ब्याज सहित, (iii) पीएस

टर्म लोन खाता संख्या 0297001800021601 के अंतर्गत **रु. 16,27,260.68** दिनाँक 29.04.2024 से भविष

के ब्याज सहित, का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को

ऋणकर्तागण, बंधककर्तागण एवं गारंटरगण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हं

चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं, गारंटरों को एवं जनसाधारण को सूचित किय

जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली

2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत

ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप

में सावधान किया जाता है कि यहां इसमें निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति क

कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 69,46,212.00 (रुनये उनहत्तर लाख छियालीस हजार दो **सौ बारह मात्र)** की एक राशि, अर्थात् **(i)** पीएस टर्म लोन खाता संख्या 0297001800021401 के अंतर्गत

रु. 19,02,691.00 दिनाँक 29.09.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, **(ii)** पीएस टर्म लोन खाता संख्या 0297001800021501 के अंतर्गत रु. 33,53,192.00 दिनाँक 29.07.2024 से भविष्य के ब्याज सहित,

(iii) पीएस टर्म लोन खाता संख्या 0297001800021601 के अंतर्गत **रु. 16,90,329.00** दिनाँक 29.07.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, साथ ही लागतों, हेतु कर्नाटका बैंक लिमिटेड, प्रयागराज शाखा वं

(ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धार

अचल संपत्ति का विवरण

<u>स्रंपति</u> 1 : सं. 6 एवं 7 धारक 37.10 वर्ग मीटर माप वाली व्यावसायिक दुकान के समस्त वह भाग तथा अं नो प्रथम तल पर स्वामित्वधारक नजल प्लॉट नंबर ९/1/सी बिहारी भवन नामक भवन सरदार पटेल मार्ग

सीमाएं : पूर्व : दुकान सं. ८, पश्चिम : दुकान सं. ५, उत्तर : 14' चौड़ा सामान्य उपमार्ग, दक्षिण : खुली भूमि

संपत्ति 2: सं. जी-7 धारक 18.9 वर्ग मीटर माप वाली व्यावसायिक दकान के समस्त वह भाग तथा अंश

<u>विधात २</u> स. जान' बारक 163 वर्ग तरह जान बारत विधायन दुवार कर्यात है। जो मृतल पर, बिहारी भवन नामक मवन, स्वानित्वारक नज़ल, मूखण्ड सं 9/1/बी, सरदार पटेल मार्ग सिविल स्टेशन, प्रयागराज–211001 में स्थित, श्री गिरीश चौधरी से संबंधित, तथा निम्नानुसार परिसीमित हैं–

नीमाएं : पूर्व : दुकान नंबर जी–8, **पश्चिम :** दुकान नंबर एफ–6, **उत्तर :** 14' चौड़ा सामान्य उपमार्ग, **दक्षिण**

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन : L85110UR1995PL.C008627) पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर ७, सेक्टर — ९, एकीकृत औद्योगिक संपदा, सिडकुल, पंत नगर,

कॉरपोरेट कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक नंबर 1, डब्ल्यू एच.एस. कीर्ति नगर, नई दिल्ली — 110015

फोन : 011–45642555, वेबसाइट : www.archidply.com, ईमेल : cs@archidply.com

एजीएम, ई-वोटिंग तथा बही समापन की सूचना

ाम बैठक (एजीएम) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे प्लॉट नंबर 7, सेक्टर — 9, एकीकृ

औद्योगिक संपदा, सिङकुल, पंत नगर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, 263153 में स्थित कंपनी के पंजीव त कार्यालय में एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय का संघालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। इसव

साथ ही एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा समय–सम

पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेय

तांतरण बहियां उपरोक्त वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गरुवार 19 सितम्बर 2024 से बधवार 25 सितम्ब

2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ 29वीं वार्षिक आम बैठक र्क

सचना उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजी जाती है जिनके ईमेल पते कंपनी / दिपॉजिटरी के सा

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की ध

108 तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली २०१५ के विनियम ४४ समय-सम

पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्य

इसके अलावा. एजीएम में मतदान / बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी औ

. बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक गं

मतदान / बैलेट पेपर के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। इलेक्टॉनिक वोटिं

श्री रजनीश शर्मा. मैसर्स रजनीश शर्मा एंड कंपनी. कंपनी सेक्रेटरीज के स्वामी को ई–वोटिंग और रिमोत

वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम में ई—वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिये जांच कर

कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदा तथा वार्षिक आम बैठक में मतदान/बैलेट पेपर के माध्यम से किया जा सकता है;

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 10:00 बजे) से आरंभ होकर मंगलवार,

वे व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर रखते हैं तथा शेयरधारक बनते हैं अं

कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 18 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण करते हैं, वे <u>evoting@nsdl.con</u>

पर ईमेल भेजकर या 022-4886 7000 पर अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी नंबर का उल्लेख कर

कॉल करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि यदि ऐ

शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई—वोटिंग के लिए (आरटीए/डीपी) के साथ पंजीकृत हैं, तो मौजूदा यूज

रिमोट ई-वोटिंग की मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (सायंकाल 05:00 बजे) के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और एजीएग

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम

कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीए में भाग ले सकता है, लेकिन उसे फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 18 सितंबर, 2024 के अनुसार सदस्य के रजिस्

या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की

अप. कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट (<u>www.archidply.com</u>), एनएसडीए की वेबसाइट (<u>www.evoting.nsdl.com</u>), बीएसई वेबसाइट (<u>www.bseindia.com</u>) और एनएसई वेबसाइ

वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evotingindia.com पर सहायता अनुभा के अंतर्गत देख सकते हैं या पल्लवी म्हात्रे को e<u>voting@nsdl.com</u> पर एक ईमेल लिख सकते हैं य

अपपप. ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्यगण कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना

कृते आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटे

हस्ता./

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है।

प्तेस्टम द्वारा मतदान की सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

के लिए स्क्रटिनाइजर के रूप में नियक्त किया गया है।

सितंबर, 2024 (सायंकाल 5:00 बजे) समाप्त होगी।

मतदान / बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(www.nseindia.com) पर उपलब्ध है; तथा

022-48867000 पर संपर्क करें।

उल्लिखित "नोट्स" अनुभाग देखें।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 29.08.2024

- कट—ऑफ तिथि बुधवार, 18 सितंबर, 2024 है।

सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

संशोधितानुसार, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को उक्त एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्ताव

उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, 263153, फोन: 05944—250270, फैक्स : 0594

कृते कर्नाटका बैंक लिमिटे

मुख्य प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकार

सिविल स्टेशन, प्रयागराज–211001 में स्थित, श्रीमती अलका चौधरी से संबंधित तथा निम्नानु

उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत. 28 अगस्त 2024 को. अधिग्रहण कर लिया है।

13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

Your Family Bank. Across India.

_____ दूरभाष : 011–40591567, (एक्स. 2 ई–मेल : delhiarm@kbank.com

वेबसाइट : www.karnatakabank.con

: 011-40591567, (एक्स. 240)

सीआईएन : एल85110केए1924पीएलसी001128

Dated: 28/08/2024 🔯 Karnataka Bank Ltd.🔯

परिसंपत्ति वसुली प्रबंधन शाखा

नई दिल्ली-110 060

कहा गया था।

प्रभाराधीन होगा।

दिनांक : 28-08-2024

8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड,

Sd/-Kuldeep Kumar Dhai Managing Director, DIN 002299386



पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

(सीआईएन : L45201DL1999PLC195937) पंजी. कार्या: एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर-II, चौथा तल, पुष्प विहार, सेक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली-110017 वेबसाइट : www.pncinfratech.com, ई-मेल : complianceofficer@pncinfratech.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजअल माध्यमों से आयोजित की जाने वाली पच्चीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

रतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की पच्चीसवीं वार्षिक आम बैठक 'एजीएम') शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को सम्पन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी एजीएम का आयोजन कंपनी अधिनियम. 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों: भारतीय प्रतिभति विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सचीबद्धता विनियम' के पावधानों और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपन्न संख्या 09/2023, समय-समय पर जार अन्य परिपत्रों और सेबी द्वारा 07 अक्टूबर, 2023 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 के प्रावधानों के अनुपालन में, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किया नाएगा ।

उपरोक्त परिपत्रों के अनपालन में. 25वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्टॉनिव रूप से भेजी जाएगी, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं)/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लेमिटेड/कंपनी के पास पंजीकत हैं।

?5वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.pncinfratech.com**; स्टॉक् क्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः ww.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') की नेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगी। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा आरटीए के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है।

जेन सदस्यों ने अभी तक कंपनी के साथ अपनी ई−मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डेपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 0.60 रुपये का अंतिम लाभांश, यदि 25वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के बाद, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिन्होंने कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') को अपने आवश्यक बैंक विवरण प्रस्तुत किए हैं। जिन सदस्यों ने यह जानकारी नहीं दी है और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आईएफएससी ('भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड') और एमआईसीआर ('मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन' नंबर सहित उक्त विवरण संबंधित डीपी को प्रदान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि 21 सितंबर, 2024 से पहले ऐसे परिवर्तनों को उनके द्वारा सही ढंग से दर्ज किया जाए।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी। रिमोट ई-वोटिंग के माध्य । वोट डालने और एजीएम में मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

निदेशक मण्डल के आदेशानम कते पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड ह./ तपन जैन

तिथि : 29 अगस्त, 2024 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र स्थान : आगरा सदस्यता सं A22603

Suprajit

SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L29199KA1985PLC006934 Registered Office: No.100 & 101, Bommasandra Industrial Area, Bengaluru, Karnataka, 560099

Tel No.: 080-43421100, Fax No.: 080-27833279, Contact Person: Mr. Medappa Gowda Jantikapu, CFO, Company Secretary and Compliance Office Email: investors@suprajit.com | Website: www.suprajit.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD

TO BUYBACK OF EQUITY SHARES

- This advertisement ("Advertisement") is being issued by Suprajit Engineering Limited ("Company"), to the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. August 27, 2024), in regard to the buyback of upto 15,00,000 (Fifteen Lakhs) fully paid-up equity shares having face value of Re. 1 only each ("Equity Shares"), on a proportionate basis, through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism at a price of ₹ 750 (Rupees Seven Hundred and Fifty only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 112,50,00,000/- (Rupees One Hundred Twelve Crores Fifty Lakhs Only) excluding Transaction Costs ("Buyback"). The Public Announcement dated August 17, 2024 was published on August 19, 2024.
- The Company has also sent the Letter of Offer dated August 29, 2024 along with the Tender Form electronically to all Equity Shareholders/ Beneficial Owners of Equity Shares as on the Record Date who have registered their e-mail ID's with the Company or the Depositories, in accordance with the Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the Buyback Regulations, if the Company receives a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer to paragraph 20.19 of the Letter of Offer for further details.
- The brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	September 02, 2024	Monday
Buyback Closing Date	September 06, 2024	Friday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buyback	September 06, 2024 05:00 P.M. (IST)	Friday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 2 of the Letter of Offer.

The details of the Ruyback Entitlement are as follows

Category	Indicative Entitlement Ratio of Buyback*
Reserved Category (for Small Shareholders)	3 Equity Shares out of every 62 Equity Shares held on the Record Date.
General Category (for other Eligible Shareholders)	1 Equity Shares out of every 105 Equity Shares held on the Record Date.

*The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 0.0483411 and General category for all other Eligible Shareholders is 0.0095210.

- For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 19.5 on page no. 34 of the Letter of Offer.
- Eligible Shareholders can also check their Entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below:
 - LOGIN TO: WWW.INTEGRATEDREGISTRY.IN
 - PLEASE CLICK ON "SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED CLICK HERE TO CHECK BUYBACK ENTITLEMENT"
 - PLEASE SELECT EITHER OF DPID CLID OR PAN NUMBER
 - ENTER A VALID DPID_CLID TO VIEW YOUR ENTITLEMENT
 - THE ENTITLEMENT WILL BE DISPLAYED ON THE SCREEN
- A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form) is available on the websites of the Company (www.suprajit.com), Manager to the Buyback (www.finshoregroup.com), Registrar the Buyback (www integratedregistry.in) and is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).
- In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
- Capitalised terms used but not defined in this advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

MANAGER TO THE BUYBACK FINSHORE

Finshore Management Services Limited Anandlok Building, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207,227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020,

West Bengal, India Tel. No.: 033 - 2289 5101 / 4603 2561; Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar;

Email: info@finshoregroup.com; Website: www.finshoregroup.com;

SEBI Registration No: INM000012185; Validity: Permanent CIN: U74900WB2011PLC169377

REGISTRAR TO THE BUYBACK Integrated

Integrated Registry Management Services Private Limited

No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, India Contact person: Mr. S. Vijayagopal / Mr. J. Gopinath Tel No.: +91 (080) 23460815-818

Fax No.: +91 (080) 23460819 Email: gopi@integratedindia.in Website: www.integratedregistry.in SEBI Registration Number: INR000000544 Validity: Permanent

For and on behalf of the Board of Directors of

CIN: U74900TN2015PTC101466

Place: Bangalore Date: August 29, 2024

SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED

MEDAPPA GOWDA JANTIKAPU

CFO, Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: 4111 $\mathsf{R}\mathsf{A}\mathsf{M}\mathsf{A}$

RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096 ⑤ +(91)-(11)-43446600 ② investors@ramasteel.com ⑥ www.ramasteel.com

50वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी, बिना किसी साझा स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसवं तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ["सेबी एलओडीआर विनियम" अनुपालन में, 5 जनवरी 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023ध्4 और 7 अक्टूबर 2023 व सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 के साथ, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र') औः उपरोक्त एमसीए परिपत्रों द्वारा जारी, यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी की 50वीं एजीएम सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बर (आईएसटी) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। प्रासंगिक सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 50वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट

की सचना. ई-वोटिंग सहित वीसीध्ओएवीएम सविधा के माध्यम से 50वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ केवल उन सर्भ सदस्यों को ई–मेल द्वारा मेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते पहले से ही कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 50वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश सचना में दिए गए हैं। वीसी /ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनिय की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.ramasteel.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (wwww.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

और 50वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा सहित ई—वोटिंग के माध्यम से अपना ई—मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के

bssdelhi@bigshareonline.com पर या कंपनी को investors@ramasteel.com पर अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपन नाम, फोलियो नंबर/डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमेट होल्डिंग के मामले में), शेयर प्रमाणपत्र की प्रति – आगे और पीछे (भौतिक होल्डिंग के मामले में), पैन कार्ड की खयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और ई–मेल पता पंजीकृ त करने के समर्थन में आधार कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करनी होगी।

कट—ऑफ तारीख तक शेयर धारण करता है, वह 50वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या **evoting@nsdl.com** प अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं, या टोल फ्री नंब

022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों

हस्ता /-(नरेश कुमार बंसल) दिनांकः 28 अगस्त, 2024 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Genus

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001 (U.P.) Phone: 0591-2511242, Website: www.genuspaper.com, Email: cs@genuspaper.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice be and is hereby given that the 13th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Monday, September 23, 2024 at 11.30 A.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 n compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 will be sent only by email to all those members of the company whose email ids are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent, viz. Niche Technologies Private Limiter These aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.genuspaper.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e BSE Limited (https://www.bseindia.com/) and National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com/) and on the website of CDSL a

Manner of registering/updating email addresses who have not registered/updated their email addresses with the Company
To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2023-24, the members are requested to register/update their email address/contact number

In case of Physical Holding: Member may send an e-mail request to the Company/RTA at cs@genuspaper.com and nichetechpl@nichetechpl.com scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, share certificate number, complete address, email address and mobile

number, and scanned copy of self-attested PAN card.

urther, shareholder may also visit the website www.genuspaper.com or in email id cs@genuspaper.com and update their email ID/ contact number

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their email addresses with their relevan

The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company a www.genuspaper.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members through email. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have

not cast their votes by remote E-voting will be able to vote at the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of carefully vote through remote e-voting or voting during AGM.

Noe in long in clinic e-voluing of Waling Admir Admir Anni In case of any query/grievance pertaining to E-volting, please contact Mr. Kunal Nayar, Company Secretary, Phone No.: 0591-2511242, Village Aghwanpul Kanth Road, Moradabad-244001, e-mail: cs@genuspaper.com

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referre

By Order of the Board For Genus Paper & Boards Limite Kunal Naya

Company Secretary

Place: Moradabad Date: August 29, 2024

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड (CIN: L74899DL1992PLC049022)

http://www.evotingindia.com/ in due course of time.

पंजीकृत कार्यालय: एसेट नंबर 6, एरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली -110037

टेलीफोन नंबर: 011 - 4605 0101; फैक्स नंबर: 011 - 4605 0110

वेबसाइटः www.lemontreehotels.com

ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com



32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि 32वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित कारोबार सम्पन्न करने के लिए लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड ('एलटीएचएल' या 'कंपनी') के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसे समय रहते भेज दिया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र 09/2023 और 7 अक्टूबर, 2023 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (इसके बाद सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनियों को सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की 32वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 7 अगस्त, 2024 के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एकीकृत रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट (<u>www.lemontreehotels.com</u>), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (<u>www.bseindia.com</u>) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस और एकीकृत रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां केवल उन लोगों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक कंपनी की 32वीं एजीएम के प्रयोजनों के लिए बंद रहेंगे।

कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी और बैठक में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिनका नाम गुरुवार, 1 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रिजस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रिजस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक से पहले अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे बैठक के दौरान फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध

"Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM तथा remote e-Voting user manual for Members" का संदर्भ ले सकते हैं या 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं। ई-मेल आईडी/पते पंजीकत करने का तरीकाः

(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500032, रंगारेड्डी, तेलंगाना या ईमेल पर <u>einward.ris@kfintech.com</u> पर जमा करके इसे अपडेट करें।

(ii) डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। बोर्ड के आदेश से

> लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के लिए हस्ता./ ज्योति वर्मा ग्रुप कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 29 अगस्त, 2024 स्थान : नई दिल्ली एम. नं. एफसीएस 7210

गर्षिक आम बैठक के अनुसरण में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/202 02/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 202

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 50वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग (एजीएम से पहले

और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान कर रही है। उक्त सूचना में रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 50वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने

कोई भी व्यक्ति, जो 50वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथ

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप

अनुपालन में है। रामा स्टील ट्युब्स लिमिटेड के लिए स्थानः नई दिल्ली